

धन-कर  
WEALTH-TAX

W.T.S.704

जिला  
District  
5-11-1967.

1. निर्धारण वर्ष  
Year of assessment 1967-68
2. कर-निर्धारिती का नाम (तथा उसका पूरा पता)  
Name of assessee (with complete address) Sri Anil Kumar Vitani, Sec'bad.
3. प्रास्थिति  
Status— Individual.  
व्यक्ति—भारत का नागरिक है/तहाँ है  
Individual—citizen/not a citizen of India  
हिन्दू अविभक्त परिवार  
Hindu Undivided family  
कम्पनी  
Company
4. वह  
Whether—  
निवासी और साधारणतः निवासी है  
Resident and ordinarily resident  
निवासी है पर साधारणतः निवासी नहीं  
Resident but not ordinarily resident  
अ-निवासी है  
Non-resident Resident.
5. मूल्यांकन की तारीख  
Valuation date 27-10-1967.
6. वह धारा और उपधारा जिसके अधीन कर-निर्धारण किया गया है  
Section and sub-section under which the assessment is made 16(3)

कर-निर्धारण आदेश  
ASSESSMENT ORDER

The assessee filed a return of wealth on 5-11-1967 declaring deficit wealth of Rs. 1,00,000/-. In response to Notice issued u/s 16(2), Sri Anil Kumar Vitani, C.A. appeared and explained the return. After discussion with him, the wealth is computed as under :-

P.T.S.

Proceedings of the Incometax Officer, Ward 5(2), Hyderabad.

Sri R. JAYARAMA SARMA,  
Incometax Officer.

G.I.No. S-~~134~~<sup>1347</sup>/82-83.

Dated: 13.2.96

Sub: Incometax asst. - Asst. year 1982-83 - Sri  
Satish Chandra Modi (Indl.) 1-10-72/2/3, Begumpet,  
Secunderabad - Int. u/s.244A payable to the  
assessee - Modification Order - Issue of - Reg.

Order u/s.154 of the Incometax Act, 1961:

13.2.95 /on  
In this case for the asst. year 1982-83, a Consequen-  
tial Order was passed/consequent on the Order passed by the  
Settlement Commission u/s.245D(4) of the Act in the case of  
M/s.Meera Industries in which the assessee is a partner, and  
a Refund of Rs.11,815/- was arrived at. While passing the  
Order int. u/s.244A of the Act was not granted to the assessee  
and this was pointed out by the assessee in his application  
u/s.154 dated 30.12.1995. Since this is a mistake apparent  
from records, the same is rectified u/s.154 of the Incometax  
Act, 1961 and the refund with interest is worked out as under:

Refund due as per Consequential  
Order dt. 13.2.1995;  
Add: Int. u/s.244A of the Act

Rs.11,815  
Rs.17,958

Total refundable  
~~Less: Refund already received~~

Rs. 29773

~~11,815~~

This will be adjusted towards tax due for other years  
~~17958~~

Copy to the assessee.  
/nk

(R. JAYARAMA SARMA)  
I.T.O. Ward 5(2), Hyderabad.

Deficit wealth returned.

\$ 11,00,051

Less: The assessee claimed as debt a sum of Rs. 44,620, being interest on the LIC loan taken on the insurance policy. For the purpose of computing the amt. order for the year 1961-62, the interest claim is not allowed.

\$ 44,620

NET WEALTH

\$ 61,631

\$ 61,600

Declared I.A. for 1961-62:

9

(Y.A. 200)  
Munichwala & Co.  
Central Circle, Calcutta.

SARMA

Send dit to  
Bul Calcutta  
on 7/2/57

... to ...